

आई0टी0एस0 डेन्टल कॉलेज द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत मरीजों के लिए शिविर लगाया गया

parichowk.com

March 9, 2021

parichowk.com



आई0टी0एस0 डेन्टल कॉलेज, मुरादनगर गाजियाबाद द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत 1 मार्च से 8 मार्च, 2021 को मरीजों के लिए गाजियाबाद के विभिन्न स्थानों अर्थात भनेड़ा, डिडोली, नंदग्राम, सरना, काकड़ा, प्राथमिक विद्यालय (सुल्तानपुर) व संजय नगर में दंत चिकित्सा स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन विना किया गया। शिविर स्थल पर आने वाले सभी मरीजों को अच्छी मौखिक स्वच्छता बनाए रखने के महत्व के बारे में जागरूक किया तथा जरूरतमंद लोगों को दंत सेवा प्रदान की गयी।

आई0टी0एस0 – द एजुकेशन ग्रुप के चेयरमैन, डॉ0 आर0पी0 चड्ढा तथा वाईस चेयरमैन, श्री अर्पित चड्ढा की प्रेरणा से इन शिविरों का सफल आयोजन कि शिविर स्थल पर आने वाले सभी मरीजों को अपना उपचार कराने के लिए प्रेरित किया गया। इसके साथ ही विभिन्न स्थानों पर विभिन्न दंत उपचार किये ग संस्थान के दंत विशेषज्ञों की टीम ने शिविर में 965 लोगों की मौखिक स्वास्थ्य की निःशुल्क जांच की। तथा आवश्यक उपचार बताये। शिविर स्थल पर 51 के दांत निकाले गये, 248 मरीजों ने दांतों की सफाई करायी, और 54 मरीजों के दांतों में मसाला भरा गया। इसके साथ ही 48 मरीजों में फ्लोराइड जेल और मरीजों में पिट एंड फीसर सीलेन्ट एप्लीकेशन जैसे निवारक उपचार किये गये। इसके बाद दंत विशेषज्ञों द्वारा उचित दूधब्रश करने की तकनीक का प्रदर्शन मॉडल और दूधब्रश की मदद से किया गया तथा दवाईयों के साथ सभी उपचार निःशुल्क प्रदान किये गये। अंत में मरीजों के बेहतर उपचार के लिए आई0टी0 डेन्टल कॉलेज में भेजा गया।

दिनांक 6 मार्च, 2021 को सुल्तानपुर के प्राथमिक विद्यालय में राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस मनाया गया। इस अवसर पर स्कूली बच्चों के लिए प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता, ड्राइंग प्रतियोगिता तथा अन्य कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। ड्राइंग प्रतियोगिता के लिए क्रेयॉन भी बाँटे गये। सभी बच्चों ने बढ़-चढ़ व कार्यक्रम में भाग लिया। प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता तथा ड्राइंग प्रतियोगिता के विजेताओं को उपहार से सम्मानित किया।

इसी क्रम में 8 मार्च, 2021 को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। जिसका विषय (महिला नेतृत्व: कोविड-19 की दुनिया में एक समान भविष्य को प्रा करना) था। यह विषय कोविड-19 महामारी के दौरान दुनिया भर में लड़कियों और महिलाओं के योगदान को समर्पित करता है। इस अवसर पर संस्थान ने 8 कुमार, जो वाइल्ड कुंगफू एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, और जिन्हें ब्लैक बेल्ट कराटे में प्राप्त है उनको कॉलेज में आमंत्रित किया गया था। वह महिलाओं को आर्ट से आत्मरक्षा करने के लिए तैयार करते हैं। मास्टर संतोष कुमार द्वारा प्रदर्शित इस आत्मरक्षा गतिविधियों में सभी महिला छात्रों ने भाग लिया। इसके छात्रों ने इसी विषय पर नुक्कड़ नाटक भी प्रस्तुत किया। इसके साथ ही महिला छात्रों के लिए पोस्टर प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया जिसमें सभी 9

छात्रों ने भाग लिया। अंत में विजेताओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर संस्थान की डेन्टल ओपीडी में आने वाली सभी महिलाओं को मुफ्त में ओपीडी कार्ड और उनका दंत उपचार किया गया। इसके साथ ही महिला मरीजों के लिए एक इंटरैक्टिव सत्र भी आयोजित किया गया जिसमें विभिन्न मौखिक स्वच्छता से संबंधित जानकारी दी गयी।

इस सफल स्वास्थ्य शिविर के आयोजन के लिये सभी मरीजों ने आईटीएस – द एजुकेशन ग्रुप के चेयरमैन डॉ० आरपी० चड्ढा जी तथा वाईस चेयरमैन अर्पित चड्ढा जी को धन्यवाद दिया।

[← Previous post](#) [Next post →](#)

स्वास्थ्य शिविर में 965 लोगों की राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत निःशुल्क जांच



मुरादनगर (अ.सं.)। आईटीएस डेन्टल कॉलेज द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत मरीजों के लिए गाजियाबाद के विभिन्न स्थानों अर्थात् भनेड़ा, ढिडोली, नंदग्राम, सरना, काकड़ा, प्राथमिक विद्यालय (सुल्तानपुर) व संजय नगर में दंत चिकित्सा स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया गया। आईटीएस - द एजुकेशन ग्रुप के चेयरमैन, डॉ आरपी चड्ढा तथा वाईस चेयरमैन अर्पित चड्ढा की प्रेरणा से इन शिविरों का सफल आयोजन किया गया। विभिन्न स्थानों पर विभिन्न दंत उपचार किये गये। संस्थान के दंत विशेषज्ञों की टीम ने शिविर में 965 लोगों की मौखिक स्वास्थ्य की निःशुल्क जांच की। अंत

में मरीजों के बेहतर उपचार के लिए आईटीएस डेन्टल कॉलेज में भेजा गया। इस अवसर पर संस्थान ने संतोष कुमार, जो वाइल्ड कुंगफू एसोसिएशन के अध्यक्ष है, और जिन्हें ब्लैक बेल्ट कराटे में प्राप्त है उनको कॉलेज में आमंत्रित किया गया था। वह महिलाओं को मार्शल आर्ट से आत्मरक्षा करने के लिए तैयार करते हैं। मास्टर संतोष कुमार द्वारा प्रदर्शित इस आत्मरक्षा गतिविधियों में सभी महिला छात्रों ने भाग लिया। इस सफल स्वास्थ्य शिविर के आयोजन के लिये सभी मरीजों ने आईटीएस - द एजुकेशन ग्रुप के चेयरमैन डॉ आरपी चड्ढा तथा वाईस चेयरमैन अर्पित चड्ढा को धन्यवाद दिया।